



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/फाल्गुन 28, 1935

No. 49]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

संदर्भ : वर्ष 2009 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 18—विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी डा. प्रेमशंकर शर्मा पर उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अधीन अधिरोपित निरर्हता को हटाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 11 के अधीन अपील ।

आ.अ. 62(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अधीन 18—विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी डा. प्रेमशंकर शर्मा को वर्ष 2009 के लोकसभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश संख्या 76/म.प्र.—लो.स./2009(II) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा न करवाने के कारण निरर्हता घोषित कर दिया गया था।

यतः, आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के निरर्हता आदेश जारी करने के पश्चात् डा. प्रेमशंकर शर्मा ने अपने दिनांक 7 नवंबर, 2013; 17 जनवरी, 2014; 28 जनवरी, 2014 और 10 फरवरी, 2014 क्रमशः के अभ्यावेदनों द्वारा, उनमें यह कहते हुए कि उन्होंने उनके निर्वाचन का लेखा जमा करा दिया है, उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने हेतु उपर्युक्त अधिनियम की धारा के अधीन अपील की थी।

यतः, डा. प्रेमशंकर शर्मा को दिनांक 7 मार्च, 2014 को निजी सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उन्होंने फिर से आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश संख्या 76/म.प्र.—लो.स./2009 (II) द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने हेतु पुनः याचना की है और अपना दिनांक 7.3.2014 का पत्र जमा कराया है।

यतः, रिकार्डों को देखने तथा डा. प्रेमशंकर शर्मा की निजी सुनवाई के पश्चात् यह पाया गया है कि उन पर अधिरोपित निरर्हता सही है।

यतः, सुनवाई के दौरान, अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा विचार था कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो यह बताते हैं कि वे विधि द्वारा अपेक्षित तरीके तथा यथोचित समय पर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, परंतु इस मामले में नरम रवैया अपनाते हुए तथा अपीलार्थी द्वारा दिए गए आवेदन को ध्यान में रखते हुए अपीलीय प्राधिकारी, इस पर आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आयोग के आदेश संख्या 76/म.प्र.—लो.स./2009 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उन पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि को कम करने का निर्णय लेते हैं।

अतः, निर्वाचन आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा धारा 10क के अधीन डा. प्रेमशंकर शर्मा पर अधिरोपित निरर्हता को एतद्द्वारा इस आदेश की तारीख से हटा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। परिणामस्वरूप, दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आयोग के आदेश संख्या 76/मध्य प्रदेश — लो.स./2009 (II) में क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित डा. प्रेमशंकर शर्मा का नाम इस आदेश की तारीख से हटा लिया गया माना जाएगा।

[सं. 76/म.प्र.—लो.स./18/2009]

आदेश से,

सुधीर त्रिपाठी, उप निर्वाचन आयुक्त

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2014

In re: Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act on Dr. Premshankar Sharma, a contesting candidate from 18 – Vidisha Parliamentary Constituency at the General Election to House of People held in 2009.

O. N. 62(E).— Whereas, Dr. Premshankar Sharma, a contesting candidate from 18 – Vidisha Parliamentary Constituency during General Election to House of People held in 2009, had been disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for not filling any account of election expenses vide Commission's Order No. 76/MP-HP/2009 (II), dated 9th July, 2012.

Whereas, after issue of the Commission's disqualification order dated 9th July, 2012, Dr. Premshankar Sharma had filed appeal under Section 11 of the aforesaid Act for removal of disqualification imposed on him vide his representations dated 7th November, 2013, 17th January, 2014, 28th January, 2014 and 10th February, 2014 respectively, stating therein that he had submitted his accounts of election expenses.

Whereas, Dr. Premshankar Sharma was given personal hearing on 7th March, 2014. He has again prayed for the removal of the disqualification imposed on him vide Commission's Order No. 76/MP-HP/2009 (II), dated 9th July, 2012, and also submitted his letter dated 7.3.2014.

Whereas, on pursuing the records and hearing Dr. Premshankar Sharma, it is observed that the disqualification imposed is correct.

Whereas, during the course of the hearing, the Appellate Authority is of the view that there are sufficient reasons that explained his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required by law and hence, taking a lenient view in the matter, in view of the submissions made by the appellant, the Appellate Authority hereon decides to reduce the period of disqualification imposed on him, under section 10A of the R.P. Act, 1951 vide Commission's Order No. 76/MP-HP/2009 (II), dated 9th July, 2012.

It is hereby decided, that the disqualification imposed on Dr. Premshankar Sharma, under section 10 A, vide Election Commission of India order dated 09th July, 2012 shall stand removed from the date of this Order. Consequently, the name of Dr. Premshankar Sharma appearing at Serial No. 08 in the Commission's Order No. 76/MP-HP/2009 (II), dated 9th July, 2012, shall be deemed to have been deleted from the said order with effect from the date of this order.

[No. 76/MP-HP/18/2009]

By Order,

SUDHIR TRIPATHI, Dy. Election Commissioner

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

आ.अ. 63(अ):— भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि मध्य प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 24 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-लो0स0/2014 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में मद संख्या 119 – नरसिंहपुर के सामने स्तम्भ-3 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

सारणी

| संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम | सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 17. होर्षगाबाद | 119 नरसिंहपुर | डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर |

[सं 434/म0प्र0-लो0स0/2014]

आदेश से,

बर्नाड जॉन, सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 14th March, 2014

O. N. 63 (E).—The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/MP-HP/2014 dated 24th February, 2014, relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Madhya Pradesh State:-

2. In the Table appended to the said Notification, for the existing entry in column 03 against item No. 119 – Narsingpur in column 02, the following entry shall be substituted:-

TABLE

| No. & Name of Parliamentary Constituency | No. & Name of Assembly Constituency | Designation of Assistant Returning Officer |
|--|-------------------------------------|--|
| 17 - HOSHANGABAD | 119 Narsingpur | Deputy Collector, Narsingpur |

[No. 434/MP-HP/2014]

By Order

BERNARD JOHN, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2014

आ. अ. 64 (अ).— भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि मध्य प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 24 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-लो0स0/2014 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:-

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में मद संख्या 63 – सतना तथा 69 – सेमरिया के सामने स्तम्भ-3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी:-

सारणी

| संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम | सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 09. सतना | 63. सतना | अपर कलेक्टर (विकास), सतना |
| 10. रीवा | 69. सेमरिया | संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर, रीवा |

[सं 434/म0प्र0-लो0स0/2014]

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन, सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 15th March, 2014

O. N. 64 (E).— The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/MP-HP/2014 dated 24th February, 2014, relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Madhya Pradesh State:-

2. In the Table appended to the said Notification, for the existing entries in column 03 against item No. 63 - Satna and item No. 69 – Semariya in column 02 the following entries shall be substituted:-

TABLE

| No. & Name of Parliamentary Constituency | No. & Name of Assembly Constituency | | Designation of Assistant Returning Officer |
|---|--|----------|---|
| 09 - SATNA | 63 | Satna | Additional Collector (Development), Satna |
| 10 - REWA | 69 | Semariya | Joint / Deputy Collector, Rewa. |

[No. 434/MP-HP/2014]

By Order,
BERNARD JOHN, Secy.